



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 868 राँची, गुरुवार

6 सितम्बर, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

31 अगस्त, 2018 ई०।

संख्या-13/पी.-8003/2013- 4955-- श्री नीरज सिन्हा, भा.पु.से. (1987), महानिदेशक, संचार एवं तकनीकी सेवाएँ, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक महानिदेशक, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री नीरज सिन्हा, भा.पु.से. (1987) के द्वारा महानिदेशक, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस, झारखण्ड, राँची के पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद को स्थिति एवं उत्तरदायित्व हेतु भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली 1954 के नियम-9 के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिदेशक के संवर्गीय पद के समतुल्य घोषित किया जाता है ।

संख्या-13/पी.-8003/2013- 4956-- श्री रेजी डुंगडुंग, भा.पु.से. (1987), अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक, संचार एवं तकनीकी सेवाएँ, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-13/पी.-8003/2013- 4957-- श्रीमती तदाशा मिश्र, भा.पु.से. (1994), विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगी ।

संख्या-13/पी.-8003/2013-4958-- श्री रणजीत कुमार प्रसाद, भा.पु.से. (2001), प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक (संगठित अपराध) अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक दुमका क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी जिलों में विधि-व्यवस्था, अपराध एवं कनीय कार्यालयों के पर्यवेक्षण से संबंधित प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के निर्धारित सारे दायित्वों का निष्पादन करेंगे ।

संख्या-13/पी.-8003/2013- 4959-- श्रीमती अन्नेपु विजयालक्ष्मी, भा.पु.से. (2006), पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-13/पी.-8003/2013- 4960-- श्रीमती निधि द्विवेद्वी भा.पु.से. (2013), समादेष्टा, झा.स.पु.-3, गोविन्दपुर, धनबाद (अतिरिक्त प्रभार-पुलिस अधीक्षक रेल, धनबाद) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-13/पी.-8003/2013- 4961-- श्री आशुतोष शेखर, भा.पु.से. (2014), पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, धनबाद अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, रेल, धनबाद के प्रभार में रहेंगे ।

संख्या-13/पी.-8003/2013- 4962-- श्री पीयूष पाण्डेय भा.पु.से. (2014) पुलिस अधीक्षक, नगर, धनबाद अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक समादेष्टा, झा.स.पु.-3, गोविन्दपुर, धनबाद के प्रभार में रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।
